



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

15 आश्विन 1938 (श0)  
(सं0 पटना 883) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

---

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त 2016

सं0 22 नि0 सि0 (मुज0)—06—11/2016/1660—श्री अरुण कुमार (आई0 डी0 4436), अधीक्षण अभियन्ता, गंडक बराज अंचल, वाल्मीकिनगर को गंडक बराज के गेट सं0—33 के क्षतिग्रस्त होने, कार्य स्थल का समय समय पर निरीक्षण नहीं किये जाने, बराज के देखरेख एवं गेटों के संचालन में लापरवाही बरतने एवं अपने पदीय दायित्वों की घोर उपेक्षा करने आदि के मामले में पूर्ण समीक्षोपरान्त सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम—9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।
4. श्री कुमार के विरुद्ध विहित प्रपत्र में प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
जीउत सिंह,  
सरकार के उप—सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 883-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>